



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933

No. 52]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 74(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2007 का 4) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग भर्ती नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उमसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. नियोक्ता प्राधिकारी.—सभी नियुक्तियां सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जाएंगी।
6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1 (2011) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	वेतन बैंड - 4 : 37,400 - 67,000 रु. के साथ ग्रेड वेतन 8,700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आयु-सीमा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आयु-सीमा
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

परिशीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

मर्ती की पदार्थ मर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आयु-सीमा द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(9)

(10)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अत्यधिक सविदा भी है

लागू नहीं होता

(11)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, (समय-समय पर अभिप्राय की जाने वाली) तुल्य आयु-सीमा के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केन्द्रीय स्थापना निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो :-

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 7,600 रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या 6,800 रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100 रु. के वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

अनिवार्य अर्हताएं या अनुभव :-

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातक डिग्री; और

	<p>(iii) स्थापन और सामान्य प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव; वाछनीय अनुभव :</p> <p>(iv) बाल अधिकार या बाल संरक्षण या बाल कल्याण या बाल विकास और कार्यक्रम के संचालन का 5 वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>टिप्पण प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काउर बाइय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाच वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अन्वयित अधिवर्षिता की आयु के अधीन होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अन्वयित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
(12)	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(13)	<p>लागू नहीं होता</p>
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	
(i) सदस्य सचिव बालक भविष्य संरक्षण आयोग - अध्यक्ष	
(ii) संयुक्त सचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य	
(iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन) महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रजिस्ट्रार	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	वेतन बड - 4 : 37,400 - 67,000 रु. के साथ ग्रेड वेतन 6,700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा भी है	<p>अनिवार्य</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार में सदृश पदों पर कार्यरत भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी, या</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में समान पदों पर कार्यरत अधिकारी, जिन्हें उच्च न्यायिक व्यवस्था में रजिस्ट्रार या कानून के निर्वहन या अनुप्रयोग के अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव है।</p> <p>(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकारों, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 7,600 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा या 6,600 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100 रु. के वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में स्नातक की डिग्री या समाज कार्य या राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन विषय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) बाल अधिकार या बाल संरक्षण या बाल कल्याण या बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ii) बाल अधिकार या मानव अधिकार में प्रशिक्षण</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अध्यासित अधिवर्षिता की आयु के अधीन होगी।)</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अध्यासित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(i) सदस्य सचिव बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सदस्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग(बालकों से संबंधित कानूनों का निपटान) - सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रस्तुतीकरण अधिकारी	1* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह क	वेतन बैंड - 3 : 15,600 - 39,100 रु. के साथ 6600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	<p>प्रतिनियुक्ति जिसके अधीन अत्यन्तानिक संविदा भी है</p>	<p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों से (समय-समय पर अभिप्राय की जान वाली तुरत आमेलेन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो :-</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या वेतन बैंड 3 में 5,400 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 93,000-34,800 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा या 4800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 93,000-34,800 रु. में वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p> <p>अनिवार्य अर्हताएं या अनुभव :</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री; और</p> <p>(iii) न्यायालयीय मामलों या विधि के निर्वचन / अनुप्रयोग में 5 वर्ष का अनुभव; वांछनीय अनुभव :</p> <p>(iv) बालकों से संबंधित मामलों / विषयों में कार्य का अनुभव।</p> <p>(टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा</p>

	अवधारित अधिवर्षता की आयु के अधीन होगी।				
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षता की आयु के अधीन रहते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।				
	(12)	(13)			
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :				लागू नहीं होता	
(i) सदस्य सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष					
(ii) संयुक्त सचिव, प्रभारी, बालक अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, - सदस्य					
(iii) रजिस्ट्रार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी सचिव	7* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	वेतन बैंड - 3 : 15,600 - 39,100 रु. के साथ 6800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(7)					
लागू नहीं होता			(8)		
(9)	(10)	(11)			
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा / सविदा भी है	(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों (समय-समय पर अभिप्राप्त की जाने वाली तुरंत आमेलन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) उच्चतम न्यायलय या उच्च न्यायलयों या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो :- (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (वेतन बैंड 3) में 5,400 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा या 4800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और (ग) कम्प्यूटर पर कार्य करने में *प्रवीणता *(इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।)			

		<p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षिता की आयु के अधीन होगी।)</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--

(12)		(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		
(i) सदस्य सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष		लागू नहीं होता
(ii) संयुक्त सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - सदस्य		
(iii) निदेशक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	01* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		वेतन बैंड - 2 : 9,300 - 34,800 रु. के साथ ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)		(8)
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक पाधिकारी परीक्षा की	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा भी है	<p>(i) बालक अधिकार संरक्षण आयोग में नियमित आधार पर ग्रेड वेतन 4200 रु. सहित वेतन बैंड 2 : 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में अनुसंधान सहायक के पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा के साथ पदोन्नति द्वारा</p> <p>(टिप्पण : पदोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद पर अहंक सेवा पूरी करने की तारीख के निर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी।)</p>

अवधि बढ़ा सकेंगा।)		<p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों (समय-समय पर अभिप्राय की जाने वाली तुल्य आमेलन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो :-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 4800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा या 4800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में अनुसंधान सहायक / ज्येष्ठ अनुसंधान अन्वेषक के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4200 के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में अनुसंधान अन्वेषक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या बाल विकास या सामाजिक विज्ञान या विधि या राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>(ग) कम्प्यूटर में प्रवीणता*</p> <p>* इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।)</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षिता की आयु के अधीन होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए * 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--------------------	--	---

(12)	(13)
<p>चयन संनते निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) सदस्य सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक / उपसचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमारी - सदस्य</p> <p>(iii) रजिस्ट्रार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेख अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ख	वेतन बैंड - 2 : 9,300 - 34,800 रु. के साथ ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।)	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है	<p>(i) बालक अधिकार संरक्षण आयोग में नियमित आधार पर ग्रेड वेतन 4200 रु सहित वेतन बैंड 2 : 9300-34800 रु के वेतनमान में लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा के साथ पदोन्नति द्वारा (टिप्पण : पदोन्नति के लिए यात्रा सूची संशोधित गेड या पद पर अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के निर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी)।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों (समय-समय पर अभिप्राय की जाने वाली तुरंत आमेलन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो :-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं या 4800 रु के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षक के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा या 4800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखाकार के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4200 के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में लेखाकार / लेखा लिपिक के रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखत हैं</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बी काम डिग्री या समकक्ष :</p> <p>(ग) केन्द्रीय सरकार के लेखा विभाग द्वारा आयोजित एनएएस में उत्तीर्णता प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (वांछित) और</p> <p>(घ) आईएसटीएम में रोकट और लेखा कर्माचार्य का प्रशिक्षण या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो (वांछित)</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कास्ट गार्ड पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अध्यापित अध्यापिका की आयु के अधीन होगी।)</p>

[illegible][illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिन्दी अनुवादक	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	वेतन बैंड - 2 : 9,300- 34,800 रु. के साथ ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा भी है	<p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों (समय समय पर प्राप्त तत्काल आमेसन के नियम से रियायत के अधीन), या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो :-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 4200 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800 रु. के वेतनमान में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) हिन्दी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी या स्नातक स्तर पर उक्त दोनों विषयों में से कोई एक विषय परीक्षा का माध्यम रहा हो।</p> <p>(टिप्पण : इस नियुक्ति के तत्काल पहले इसी या केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में अन्य एक्स - कैंडिडेट पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के अधीन होगी।)</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षता की आयु के अधीन रहते हुए *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>अनुवाद की प्रवीणता का अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित कौशल परीक्षण में किया जाएगा।</p>

(12)	(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) सदस्य सचिव बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष (ii) निदेशक या उपसचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य (iii) निदेशक बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य (iv) हिन्दी अधिकारी / सहायक निदेशक (हिन्दी), महिला और बाल विकास मंत्रालय- सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	2* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	वेतन बैंड 2 : 9,300- 34,800 रु. के साथ ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।)	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा भी है	<p>(i) बालक अधिकार संरक्षण आयोग में नियमित आधार पर (ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित वेतन बैंड 1 : 5200-20,200 रु. के वेतनमान में) क्लर्क के पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा सहित पदोन्नति द्वारा</p> <p>(टिप्पण : पदोन्नति के लिए यात्रा सूची संबंधित ग्रेड या पद पर अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के निर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी)।</p> <p>(ii) कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों (समय-समय पर अभिप्राय की जाने वाली तुरंत आमेलन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) कन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो -</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद पर या 2400 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20,200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर 10 वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, और</p> <p>(ग) कम्प्यूटर में प्रवीणता*</p> <p>* इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।</p>

	<p>(12) इस नियुक्ति के तत्काल पहले इसी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन नियाम-में अन्य एक्स - केडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अध्यासित अधिवर्षिता की आयु के अधीन रहते हुए, * 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>यद्यपि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(i) सदस्य सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक या उपसचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सहायक	3* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ख	वेतन बैंड - 2 9300- 34800 रु के साथ ग्रेड वेतन 4200 रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	<p>प्रतिनियुक्ति / पदान्ति जिसके अंतर्गत अत्यवधि सविदा भी है</p>	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>(i) केंद्रीय या राज्य सरकार (समय-समय पर प्राप्त होने वाले तत्काल आमेहन के नियमानुसार छूट के अध्येन), केंद्रीय विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारिया की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो :-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 2800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु के वेतनमान में आयुतिपिक के रूप में 06 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या 2400 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु के वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p>

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।)	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा / सविदा भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	केन्द्रीय या राज्य सरकारों (समय-समय पर प्राप्त होने वाले तत्काल आमेलन के नियमानुसार छूट के अधीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो :- (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 2800 रु. के ग्रेड वेतन में अनुसंधान अन्वेषक के रूप में 6 वर्ष की नियमित सेवा या 2400 रु. के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या बाल विकास या सामाजिक विज्ञान या विधि या राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री और (ग) कम्प्यूटर पर कार्य करने में प्रवीणता* * इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।) (टिप्पण : इस नियुक्ति के तत्काल पहले इसी या केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में अन्य एक्स - केडर के पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के अधीन होगी।) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षता की आयु के अधीन रहते हुए * 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता
(i) सदस्य सचिव बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष (ii) निदेशक / उपसचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य (iii) रजिस्ट्रार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा लिपिक	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	वेतन 40 - 2 : 9,300-34,800 रु. के साथ ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	अधिकतम 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है)। टिप्पण आयु सीमा के अवधारण की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परन्तु सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।)	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अत्यावधि सविदा भी है जिसके न हो सकन पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों (समय-समय पर अभिप्राय की जाने वाली तुरंत आमेलन के नियम से छूट के अधीन रहते हुए) केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केंद्रीय स्थायत निकायों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर जो -</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या 2800 रु. के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ लेखाकार के रूप में 6 वर्ष की नियमित सेवा या 2400 रु. के ग्रेड वेतन में प्रवर्ग श्रेणी लिपिक (लेखा) के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बी. कॉम डिग्री या समकक्ष अंक</p> <p>(ग) कम्प्यूटर आधारित लेखा कार्य करने में प्रवीणता* (उदाहरण के लिए टैली)</p> <p>* इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(टिप्पण : इस नियुक्ति के तत्काल पहले इसी या केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में अन्य एक्स - केंडर के पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह भारत सरकार द्वारा नियमित सेवानिवृत्ति की आयु के अधीन होगी।)</p>

	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवधारित अधिवर्षिता की आयु के अन्तर्गत रहते हुए *56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)		(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता
(i) सदस्य सचिव, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष		
(ii) निदेशक / उपसचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य		
(iii) निदेशक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लिपिक	2* (2011) * कार्यभार के आभार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ग	वेतन दंड 1 5200- 20,200 रु. के साथ ग्रेड वेतन 2400 रु	लागू नहीं होता	अधिक से अधिक 27 वर्ष (किन्तु सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार घट दी जा सकती है)। टिप्पण आयु सीमा के अवधारण की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(7)		(8)
अनिवार्य अर्हतापु / कोशल		लागू नहीं होता
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।		
(ख) केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संगठन में संविदा आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव		
(ग) 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति* (अंग्रेजी में) (अनुज्ञेय समय दस मिनट)		
घ) * इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा।		

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।)	<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : प्रत्याक्षी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि तक अवकाश पर होने से उत्पन्न हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) जा -</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं या</p> <p>(ii) 2400 रु. के ग्रेड वेतन में 5200-20200 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखत हैं और</p> <p>(ख) जॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट प्रहस्ताएँ और अनुभव</p>	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>चयन समिति निर्मलखिंद से मिलकर बनगी</p> <p>(i) सदस्य सचिव बालक अधिकार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक / उपनिदेशक महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमारी - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिन्दी टंकक	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ग	वेतन बैंड 1 : 5200- 20,200 रु के साथ ग्रेड वेतन 2400 रु	लागू नहीं होता	अधिकतम 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा के अवधारण की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और (ख) केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संगठन में संविदा आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव (ग) 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति* (हिन्दी में) (अनुज्ञेय समय - 10 मिनट) (घ) कम्प्यूटर पर कार्य करने में प्रवीणता *(इसका अवधारण बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा)।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (परंतु सरकार द्वारा समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।)	सौधी भर्ती टिप्पण : प्रत्याशी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक अवकाश पर होने से उत्पन्न हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक	लागू नहीं होता

21

	<p>क्षेत्र के उपक्रमा 7 के दीय स्वायत्त निकायों के भूमिधारियों की निर्गमनयक्ति द्वारा अभ्यागति संविदा भवन जो:</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत है या</p> <p>(ii) 2400 रु के ग्रेड वेतन में 5200-20,200 रु के तन्त्रमा म 5 वर्ष की नियमित सेवा प्राप्त है और</p> <p>(ख) कॉलम 7 के तहत सीधी भती के लिए निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव</p>	
	(12)	(13)
चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	<p>(i) सदस्य सचिव, बालक अधिवार संरक्षण आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक / उपसचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभारी - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग - सदस्य</p> <p>(iv) हिन्दी अधिकारी / सहायक निदेशक (हिन्दी), महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3-6/2010-सीडब्ल्यू-1]
विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2012

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2007), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts in the National Commission for Protection of Child Rights under the Ministry of Women and Child Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights Staff Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These Rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the posts their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment of the said posts, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Appointing Authority.—All appointments shall be made by the Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights.

6. Disqualification.—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled in various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
1. Director	2 (Full substitution depending on workload.)	3. Group 'A'	4. PB-4: Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700/-	5. Not applicable	6. Not applicable	7. Not applicable	8. Not applicable	9. Not applicable	10. Deputation including short-term contract	11. By deputation of Officers from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time); Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies who are:- (i) holding analogous posts on regular basis; or having five years of regular service in the Pay Scale of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600/-; or having ten years of regular service in the Pay Scale of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 6,600/-; Essential qualifications or experiences: (ii) having a Graduate Degree in any discipline of Social Sciences from a recognised university; and (iii) having five years of experience in Establishment and General Administration;	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson (ii) Joint Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights-Member (iii) Joint Secretary (Administration) of Ministry of Women and Child Development - Member	13. Not applicable

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Registrar	1* (2011) * subject to variation depending on workload.	Group 'A'	PB-4: Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract	Desirable experience (iv) having 5 years of experience in Child Rights or Child Protection or Welfare or Child Development and Programme Administration. <i>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or departments of the Central Governments or States Government shall ordinarily not exceed five years) and will be subjected to the age of superannuation as determined by Government of India.</i> The upper age limit for deputation shall be *56 years, subject to the age of superannuation as prescribed by Government of India from time to time.	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson (ii) Member, National Commission for Protection of Child Rights(dealing with laws relating to children)-Member (iii) Joint Secretary of Ministry of Women and Child Development in-	Not applicable
										Essential: (i) Officers of the Indian Legal Service holding analogous posts under the Central Government; or (ii) Officers holding analogous posts under the Central Government or Supreme Court or High Court and possessing experience as Registrar of higher judiciary or any other post involving interpretation or application of statutes; or (iii) Officers from the Central or State Government or Supreme Court or High Courts or Central Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking having five years of regular service in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600/- or ten year of regular service in the pay scale of Rs. 15,600-		

1. Presenting Officer	2. 1* (2011) *subject to variation depending on workload.	3. Group 'A'	4. PB-3: Rs. 15,600- 39,100 with Grade Pay Rs. 6,600/-	5. Not applicable	6. Not applicable	7. Not applicable	8. Not applicable	9. Not applicable	10. Deputation including short-term contract/ contract.	11. By deputation of officers from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) or Supreme Court or High Courts or Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies, who are:	12. The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson (ii) Joint Secretary of Ministry of Women and Child	13. Not applica- ble
										<p>39,100 with grade pay of Rs. 6600/-; and</p> <p>(iv) Having a Graduate Degree in Law or Post Graduate Degree in Social Work or Political Science or Public Administration from a recognised University or Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Five years of working experience in the field of the child rights or child protection or child welfare or child rights protection work; and</p> <p>(ii) Training in child rights or human rights.</p> <p><i>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or departments of the Central Governments or States Government shall ordinarily not exceed five years) and will be subjected to the age of superannuation as determined by Government of India.</i></p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years, subject to the age of superannuation as prescribed by Government of India from time to time.</p>	charge of National Commission for Protection of Child Rights -Member	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Principal Private Secretary	7* (2011) *subject to variation depending on workload.	Group 'A'	PB-3: Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract/contract	<p>(i) By deputation of officers from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) or Supreme Court or High Court or Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies, who are:-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis; or having five years of regular service as Private Secretary in the Pay Scale of Rs. 9,300-34,800 (Pay Band-3)</p>	<p>The selection Committee will comprise of</p> <p>(i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson</p> <p>(ii) Joint Secretary of Ministry of Women and Child Development</p>	Not applicable
										<p>with Grade Pay of Rs. 5,400; or having six years of regular service in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay Rs. 4,800;</p> <p>Essential qualification or experience:</p> <p>(ii) having a graduate degree in law from a recognised university; and</p> <p>(iii) having five years of experience in court matters or interpretation or application of statutes;</p> <p>Desirable experience:</p> <p>(iv) having experience in dealing with child related cases or matters.</p> <p>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed four years and will be subjected to the age of superannuation as determined by Government of India from time to time)</p> <p>The upper age limit for deputation shall be *36 years, subject to the age of superannuation as determined by Government of India from time to time.</p>	<p>Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights-Member</p> <p>(iii) Registrar, National Commission for Protection of Child Rights-Member</p>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Assistant Director	01* (2011) *subject to variation depending upon the work load.	Group 'B'	PB-2: Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 5400/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.)	Promotion/Deputation including short-term contract	<p>(i) By promotion with eight years of service in the grade rendered after appointment to the post of Research Assistant in National Commission for Protection of Child Rights in (Pay Band-2 with Pay scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay- Rs. 4200) on a regular basis.</p> <p>[Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officer of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.]</p> <p>(ii) By deputation of officials from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate</p>	<p>The Selection Committee will comprise of:</p> <p>(i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson</p> <p>(ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for</p>	Not applicable
										<p>with Grade Pay of Rs. 5,400, or having six years of regular service as Private Secretary in the Pay Scale of Rs. 9300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/-;</p> <p>(b) having a graduate degree in any discipline from a recognised university; and</p> <p>(c) *Proficiency in working on computer. *(will be determined through an internal test conducted by National Commission for Protection of Child Rights).</p> <p>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed four years and will be subjected to the age of superannuation as determined by Government of India from time to time.)</p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years, subject to the age of superannuation as determined by Government of India from time to time.</p>	<p>charge of National Commission for Protection of Child Rights-Member</p> <p>(iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights-Member</p>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Accounts Officer	I* (2011) *subject to	Group 'B'	PB-2; Rs. 9,300-34,800 with	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority)	Promotion/Deputation including short-term	<p>absorption to be obtained from time to time) Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies who are :-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis; or having two years of regular service as a senior Research Assistant in the Pay scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-; or having three years of regular service as a Research Assistant or Senior Research Investigator in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600/-; or having eight years of regular service as Research Investigator in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-;</p> <p>(b) having a post-graduate degree from a recognized university in social work or psychology or child development or sociology or law or political science or public administration;</p> <p>(c) having *proficiency in computer.</p> <p>* (Proficiency Test would be internally conducted by National Commission for Protection of Child Rights)</p> <p>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed three years.)</p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years or as prescribed by Government of India from time to time.</p>	The Selection Committee or Departmental Promotion	Not applicable

variation in, pending on workload.	Grade Pay of Rs. 5,400/-			may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Govern- ment from time to time.)	contract	Rights in Pay Band-2 in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/- on a regular basis. [Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the official of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.]	Committee will comprise of:
						(i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights-Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in- charge of National Commission for Protection of Child Rights-Member (iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights - Member	
						(a) holding analogous post on regular basis; or having two years of regular service as Assistant Accounts Officer or Auditor in the Pay scale of Rs. 9,300- 34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/-; or having three years of regular service as Junior Accounts Officer or Senior Accountant in the Pay scale of Rs. 9,300- 34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600/-; or having eight years of regular service as Accountant or Accounts Clerk in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-; (b) having a B.com degree or equivalent from a recognised university; (c) having a pass certificate in Sub Accounts Service or equivalent examination conducted by any organised accounts Department of the Central Government (desirable); and (d) having successful completion of training in the cash and accounts work in Institute of Secretariat Training and Management or equivalent (desirable).	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Desk Officer	1* (2011) *subject to variation depending on workload.	Group 'B'	PB-2: Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.)	Promotion/Deputation including short-term contract	<p>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed three years.)</p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years or as prescribed by Government of India from time to time.</p> <p>(i) By promotion with five years of service in the grade rendered after appointment to the post of Assistant in National Commission for Protection of Child Rights in Pay Band : 2 with the Pay scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 on a regular basis.</p> <p>(Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the official of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.)</p> <p>(ii) By deputation of official from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) or Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies, who are:-</p> <p>(a) holding on regular basis the post of Section Officer or analogous post in the Pay Scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,600/-; or having five years of regular service as an Assistant in the Pay Scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-;</p> <p>(b) having a graduate degree in any discipline from a recognised university;</p>	<p>The Selection Committee will comprise of:</p> <p>(i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights - Chairperson</p> <p>(ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in charge of National Commission for Protection of Child Rights - Member</p> <p>(iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights - Member</p>	Not applicable

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Hindi Translator	1* (2011) *subject to variation depending on work load.	Group 'B'	PB-2: Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay Rs. 4,600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract/contract	By deputation of official from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies, who are :- (a) holding analogous post on regular basis; or having five years of regular service as a Junior Hindi Translator in the Pay scale of Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-. (b) having a Master's degree in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level. (Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights - Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights - Member (iii) Director, National Commission for Protection of Child	Not applicable
										(c) having five years of experience in establishment and general administration; and (d) *Proficiency in working on computer. * (will be determined through an internal test conducted by National Commission for Protection of Child Rights). (Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed three years.) The upper age limit for deputation shall be *56 years or as prescribed by Government of India from time to time		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Assistant	2* (2011) *subject to variation depending on work load	Group 'B'	PB-2: Rs. 9,300 — 34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years (Provided that the authority controlling the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.)	Promotion/ Deputation including short-term contract	<p><i>this appointment in the same or other organization or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed three years)</i></p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years or as prescribed by Government of India from time to time.</p> <p>Note.- The translation proficiency will be determined through a skill test internally conducted by National Commission for Protection of Child Rights.</p>	<p>Rights -Member</p> <p>(iv)Hindi Officer or Assistant Director (Hindi), Ministry of Women and Child Development-Member</p>	Not applicable
										<p>(i) By promotion with ten years of service in the grade rendered after appointment to the post of Clerk in National Commission for Protection of Child Rights in Pay Band: 1 in the Pay Scale of Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2,400/- on a regular basis.</p> <p>[Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officer of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.]</p> <p>(ii) By deputation from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies :-</p> <p>(a)holding analogous post on regular basis; or having ten years of regular service in the Pay scale of Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2,400/-;</p> <p>(b)having a graduate degree in any discipline from a recognised university or institution; and</p>	<p>The Selection Committee will comprise of:</p> <p>(i)Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights -Chairperson</p> <p>(ii)Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights -Member</p> <p>(iii)Director, National Commission for Protection of Child Rights - Member</p>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Personal Assistant	3* (2011) *subject to variation depending on workload.	Group 'B'	PB-2 Rs 9,300- 34,800 with Grade Pay of Rs. 4,200/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract/ contract	Deputation. (i) By deputation from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies who are:- (a) holding analogous posts on regular basis; or having six years of regular service as a Stenographer in the Pay Scale of Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2,800/-; or having ten years of regular service in Pay scale of Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2400/-; (b) possessing a graduate degree in any discipline from a recognised university or institution; (c) having stenographic proficiency with dictation speed of at least 80 words per minute and with typing speed of 60 words per minute; and	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights - Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights - Member (iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights - Member	Not applicable

(c) *proficiency in computer.
*(will be determined through an internal test conducted by National Commission for Protection of Child Rights).

(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed ten years)

The upper age limit for deputation shall *56 years or as prescribed by Government of India from time to time.

4034012-5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Research Assistant	I* (2011) *subject to variation depending on work load	Group 'B'	PB-2: Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay Rs. 4,200/-	Not applicable	Not exceeding 27 years (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of application.	Not applicable	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.)	Deputation including short-term contract/Contact falling which by direct recruitment.	By deputation of official from Central or State Governments (subject to the exemption from the rule of immediate absorption to be obtained from time to time) Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies who are:- (a) holding analogous post on regular basis or six years of regular service as a Research Investigator in the grade pay of Rs. 2800/-, or having ten years of regular service as a Junior Research Investigator in the grade pay of Rs. 2400/-; (b) having a graduate degree from a recognised university or institution in social work or psychology or child development or sociology or law or political science or public administration; and (c) *proficiency in working on computer.	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights- Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights - Member (iii) Registrar, National Commission for Protection of Child Rights - Member	Not applicable
										<p>(d) having *proficiency in working on computer.</p> <p>* (will be determined through an internal test conducted by National Commission for Protection Child Rights)</p> <p>(Note: The period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed three years)</p> <p>The upper age limit for deputation shall be *56 years or as prescribed by Government of India from time to time.</p>		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Clerk	2* (2011) *subject to variation depending on workload.	Group 'C'	PB-1: Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2,400/-	Not applicable	27 years (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of application	Essential qualifications/skills (a) Qualification: 12 th Pass or equivalent from a recognised Board; and (b) having minimum of three years working experience on contract basis in Central Government or Central Autonomous Organisation (c) *typing speed of 35 words per minute (in English). (Time allowed-10 minutes). (d) *proficiency in working on computer. *(will be determined	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time)	Direct recruitment Note: "Vacancies caused by the incumbent being away or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled or deputation basis (including short term contract) from officers of Central Government, Central Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Central Autonomous Bodies who are— (a) (i) holding analogous	Central Government or State Government shall ordinarily not exceed (three years) The upper age limit for deputation shall be *36 years or as prescribed by Government of India from time to time	The Selection Committee will comprise of (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights -Member (iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights - Member	Not applicable

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Hindi Typist	1* (2011) *subject to variation depending on workload.	Group 'C'	PB-1: Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay: Rs. 2,400/-	Not applicable	27 years (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of application	(a) Qualification: 12 th Pass or equivalent from a recognised Board and (b) having minimum of three years working experience on contract basis in Central Government or Central Autonomous Organisation. (c) *typing speed of 10 words (in Hindi) per	Not applicable	Two years (Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time)	Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis (including short term contract) from officers of Central	Not applicable	The Selection Committee will comprise of: (i) Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights- Chairperson (ii) Director or Deputy Secretary of Ministry of Women and Child Development in-charge of National Commission for Protection of Child Rights- Member (iii) Director, National Commission for Protection of Child Rights- Member	Not applicable

